Website: www.naturahuechem.com E-mail: naturahue@rediffmail.com Telephone: 0771- 4030947

NATURA HUE CHEM LIMITED

Registered Office: 408, Wallfort Ozone, Fafadih, Raipur (Chhattisgarh) 492001 [CIN NO: L24117CT1995PLC009845]

REF: NATHUEC/BSE/2025-26/12 Date: 29.05.2025

To,
The Corporate Relationship Department,
Bombay Stock Exchange Ltd
P. J. Towers, 25th Floor,
Dalal Street,
Mumbai (Maharashtra) 400001

Dear Sir/Madam,

<u>Sub: Publication of Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2025</u>

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 as amended please find enclosed herewith newspaper advertisement for the audited financial results of Natura Hue Chem Limited for the quarter & financial year ended 31 March, 2025 published in "The Free Press Journal" Mumbai Edition (English) & "Lok Maya" Raipur Edition (Hindi) on 29th May, 2025 for your information & record.

The above information is also available on the website of the company www.naturahuechem.com

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For, Natura Hue-Chem Limited,

Komal Goyal (Company Secretary & Compliance Officer)

M. No: ACS 75839

Date: 29.05.2025 Place: Raipur

Encl: As above

SIKOZY REALTORS LIMITED Registered office: B-3, Trishul Apart

artment, Village Mudre Khurd, Taluka-Karjat, Dist-Raigad - 410 201 CIN : L45200MH1992PLC067837 Extract of Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2025 (₹. in Lakhs Quarter ended | Quarter ended | Year ended **Particulars** 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2024 31.03.2025 Total income from operations (Net) 1.43 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax -13.77 -6.00 -4.02 -17.15Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) -13.77 -6.00 -4.02-17.15 **Equity Share Capital** 445.83 445.83 445.83 445.83 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (after Tax & extraordinary &/or exceptional items) Face Value of ₹. 1/- each Basic & Diluted -0.013 -0.010 -0.038 -0.031

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulatior 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website a www.sikozyrealtorsltd.com

-0.013

-0.010

-0.038

-0.031

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board at their respective meeting held or For SIKOZY REALTORS LIMITED

Rishabh Gupta Date : 28th May, 2025 Managing Director



Basic & Diluted

BOMBAY OXYGEN INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65100MH1960PLC011835

22/B, Mittal Tower, 210 Nariman Point, Mumbai - 400 021. Email id:- contact@bomoxy.com | Website: - www.bomoxy.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025

(Ito: III lakii							
Particulars	Quarter	ended	Year Ended				
Particulars	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)			
Total income from operations (net)	(1,421.97)	1,265.82	2,021.31	7,083.97			
Net Profit / (Loss) for the year (Before tax,	(1,471.66)	1,336.30	1,907.65	7,022.10			
Exceptional and /or Extraordinary items)							
Net Profit / (Loss) for the year before tax	(1,471.66)	1,336.30	1,907.65	7,022.10			
(after Exceptional and /or Extraordinary items)							
Net Profit / (Loss) for the year after tax	(1,230.14)	869.45	1,750.59	5,760.09			
(after Exceptional and /or Extraordinary items)							
Total Comprehensive Income for the year	(1,358.33)	2,143.95	2,078.31	13,015.97			
(comprising profit or (loss) for the year after tax and							
other Comprehensive income after tax)							
Equity Share Capital	150.00	150.00	150.00	150.00			
Earnings Per Share (EPS) of Rs. 100/- each							
- Basic & diluted (not annualised)	(820.09)	579.63	1,167.06	3,840.06			

Notes:

Place: Mumbai

Date: 28th May, 2025

PARTICULARS

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income

Equity Share Capital (Face value ₹10/- each)

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

the financial year which were subjected to Limited Review

as shown in the Audited Balance Sheet of

the previous year

(1) Basic (Rs.)

(2) Diluted (Rs.)

Place: Mumbai

Date: May 28, 2025

Place: Mumbai

Date : May 27, 2025

Earnings per share (EPS) (Face value : ₹10/- per share)

Net Profit/(Loss) for the period before Tax lafter Exceptional and/or Extraordinary items

Total Income from Operations

- The above is an extract of the detailed format of the Quarter Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange at BSE at www. bseindia.com and on Company's website at www.bomoxy.com
- The above Audited financial results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28th May, 2025
- The financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2025 have been audited by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.
- The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable
- Comparative financial information of the previous quarter have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to correspond to the figures of current quarter.
- The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.35/- per equity share of Rs.100.00 each for the year ended 31st March, 2025 which is subject to the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

OLYMPIA INDUSTRIES LIMITED

CIN No: L52100MH1987PLC045248
Regd Office: C-205, Synthofine Industrial Estate, Behind Virwani Industrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400063 | Tel: +91 22 42026868 Email: info@eolympia.com | Web: www.eolympia.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

43.07

43.07

39.17

49 99

602.36

0.65

0.65

the Stock Exchange under Regulations 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations 2015. The full format of the Audited Quarterly and Year ended Financial Results are available

on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.eolympia.com)

2) The above Financial Results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and thereafter

of full financial year and published year to date figures upto December 31, 2024, being the end of 3rd quarter of

Note: 1) The above is an extract of the details format of Audited Quarterly and Year ended Financial Results filed with

The figures of the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figure between the audite

The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below

have been approved by the Board of Directors at their meeting held on May 28, 2025.

By order of the Board Hema Renganathan Whole-Time Director DIN: 08684881

(₹ in Lakhs except EPS)

176.45

176.45

129.55

168.94

602.36

3.713.19

2.15

ed figures in respec

131.37

131.37

78.77

602.36

3.544.25

1.31

 Quarter ended
 Quarter ended
 Corresponding leader
 Year ended
 Corresponding leader

31.03.2025 31.12.2024 31.03.2024 31.03.2025 31.03.2024

(Audited)* (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited)

43.55

43.55

28.55

602.36

0.47

5.967.83 5.326.40 28.309.02

40.20

40.20

19.68

602.36

0.33

0.33

For and on behalf of Board of Directo

For Olympia Industries Ltd.

Chairman & Managing Director DIN: 00085711

NOTICE

NOTICE is hereby given that certificate for Advertisement shares of ORIENTAL RAIL INFRASTRUCTURE LTD. in the name of SATYAVATI SADANAND SHENOY under Folio No. 0000593 bearing Cert. No. 5 and Dist Nos. 39001-43000 have been lost and application has been made to the Company to issue duplicate in lieu thereof. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company's Registrars & Transfer Agents at "ADROIT CORPORATE SERVICES PVT. LTD." 18-20, Jaferbhoy Ind Estate 1st Floor, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai-400059 within 15 days from the date of publication of this Notice, else

the Company will proceed to issue Duplicate Certificates.

Place : Mumbai Date: 29th May 2025

Date :28.05.2025 Place : Raipur

SHREE RAJIV LOCHAN O	994PLC005981	
27/3, Near Agrasen Bhawa		
Standalone Statement o		
Particulars		As at Previous year ende
	(31/03/2025)	(31/03/2024)
ASSETS		
Non-current assets	0.06	0.06
(a) Property, Plant and Equipment	0	-
(b) Capital work-in-progress	0	-
(c) Investment Property	0	-
(d) Goodwill	0	-
(e) Other Intangible assets	0	-
(f) Intangible assets under development	0	-
(g) Biological Assets other than bearer plants	0	-
(h) Financial Assets		
(i) Investments	132.87	132.87
(ii) Trade receivables	0	-
(iii) Loans	0	-
(i) Deferred tax assets (net)	0	-
(j) Other non-current assets	0	-
Current assets	0	-
(a) Inventories	0	-
(b) Financial Assets	0	-
(i) Investments	0	-
(ii) Trade receivables	44.73	44.73
(iii) Cash and cash equivalents	0.17	-
(iv) Bank balances other than(iii) above	3.13	76.28
(v) Loans	362.50	268.46
(vi) Others (to be specified)	3.09	3.09
(c) Current Tax Assets (Net)	0	-
(d) Other cufrent assets	0	-
Total Assets	546.55	525.49
EQUITY AND LIABILITIES		
EQUITY		
(a) Equity Share capital	301.80	301.80
(b) Other Equity	202.73	216.25
LIABILITIES		
Non-current liabilities	0	-
(a) Financial Liabilities	0	2.50
(i) Borrowings	40.75	0.45
(ii) Trade payables	0.09	-
(iii)Other financial liabilities (other than		
those specified in item (b), to be specified)	0	-
"(b) Provisions"	1.11	4.42
(c) Deferred tax liabilities (Net)	0.07	0.07
(d) Other non-current liabilities	0	-
Current liabilities	0	-
(a) Financial Liabilities	0	-
(i) Borrowings	0	-
(ii) Trade payables	0	-
(iii) Other financial liabilities (other than		l
those specified in item (c)	0	-
(b) Other current liabilities	0	-
(c) Provisions	0	-
(d) Current Tax Liabilities (Net)		<u>-</u> _
Total Equity and Liabilities	546.55	525.49

TWIN ROSES TRADES & AGENCIES LIMITED Regd.Office: 147, 14th Floor, Atlanta, Nariman Point, Mumbai 400 021.

CIN: L51900MH1985PLC035214 • Website: www.trtal.org.in EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

		(< in lakn, except per snare dat						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2025	Quarter ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024			
1.	Total income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.42	1.59	2.58	2.10			
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	0.42	1.59	2.58	2.10			
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.94)	0.14	(2.73)	(3.05)			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.94)	0.14	(2.73)	(3.05)			
6.	Equity Share Capital	224.10	224.10	224.10	224.10			
7.	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet			63.24	65.97			
8.	Earnings per Share (Face value of ₹ 10/- each) for continuing and discontinued operations Basic Diluted	(0.04) (0.04)	0.01 0.01	(0.12) (0.12)	(0.14) (0.14)			
loto		(0.0-7)	0.01	(0.12)	(0.1-7)			

- Results of the quarter and year ended March 31, 2025 are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs. The figures of the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary, to make them comparable.
- The Audit committee has reviewed the above results. The Board of Directors at its meeting held or May 28, 2025 approved the above results and its release.
- The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.trtal.org.in).

For Twin Roses Trades & Agencies Limited

Place: Mumbai Date: May 28, 2025

Miten A. Raja

naging Director DIN: 0028608

₹ in lakh excent ner share data



HERCULES HOISTS LIMITED

Registered Office: Bajaj Bhavan, 2nd Floor, 226, Nariman Point , Mumbai-400021 CIN: L45400MH1962PLC012385 AUDITED EINANCIAL DESULTS FOR THE OHARTER AND VEAR ENDER 24ST MARCH 2025

Α	UDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER	KAND TEA	K ENDED	3121 MAR	CH 2025
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2024
1 2	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before tax,	16.25	614.76	27.12	910.54
3	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional	0.11	566.65	27.11	910.51
	and/or Extraordinary items)	0.11	566.65	27.11	910.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.07	558.22	20.29	882.83
5	Total Comprehensive Income for the period { Comprising profit / loss for the period (after tax) & other comprehensive income (after tax) }	2,668.71	13,011.48	5,650.02	22,222.89
6 7	Paid up Equity Share Capital (face value Rs.1/- per share) Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the	320.00	320.00	320.00	320.00
	audited balance sheet of the previous year				84,328.05
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1 Basic:				

0.00

1.74

0.06

NOTES The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2025 which were reviewed by the Audit Committee at Its meeting held on 27th May, 2025 and approved at the meeting of the Board of Directors and filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out audited review of the aforesaid results. The full format of the Financial Results is available on the website of BSE at www.bseindlacom and at Company's website at www.herculeshoists.in The full format of the Quarterty Financial Results can be accessed by scanning the QR provided below.

The Company operates in one segment only. Figures of the previous quarter period have been regrouped, rearranged, whereever necessary to make them

FOR HERCULES HOISTS LIMITED Shekhar Bajaji

Chairman & Directo

(DIN: 00089358

PLACE: MLIMBAL DATE: 27/05/2025

2. Diluted

RAVINDRA ENERGY LIMITED

Regd. Office: BC 105, Havelock Road, Camp, Belgaum-590001, Karnataka, India Tel. No: +91-831-2406600 | Fax No: +91-831-2443224 | CIN: L40104KA1980PLC075720 | Website: www.ravindraenergy.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2025 (₹ in Million, except per share data)

S.	Particulars	Standalone						Consolidated			
No.			Quarter ended		Year e	nded	Quarter ended			Year ended	
		March	December	March	March	March	March	December	March	March	March
		31, 2025	31, 2024	31, 2024	31, 2025	31, 2024	31, 2025	31, 2024	31, 2024	31, 2025	31, 2024
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Revenue from Operations	1,415.30	390.22	158.18	1,881.25	606.42	1,589.89	531.43	301.19	2,504.22	1,309.67
2	Net Profit before tax (before Exceptional Items)	249.11	69.35	59.88	310.62	107.50	282.97	44.20	21.05	327.82	186.55
3	Net Profit before tax (after Exceptional Items)	92.95	69.35	59.88	246.00	107.50	137.65	44.20	(624.05)	274.04	(458.55)
4	Net Profit after tax (after Exceptional Items)	104.49	59.49	60.14	246.15	108.44	136.49	26.53	(633.59)	232.93	(508.58)
5	Total Comprehensive Income for the period	104.17	59.49	60.16	245.84	108.46	128.64	21.76	(633.94)	217.79	(508.92)
	{Composing Profit/(Loss) for the period (after tax)										
	and Other Comprehensive Income (after tax)}										
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	1,788.04	1,788.04	1,544.80	1,788.04	1,544.80	1,788.04	1,788.04	1,544.80	1,788.04	1,544.80
7	Other Equity				1,715.38	(91.25)	-	-	-	1,601.97	(90.85)
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10/- each)										
	(not annualised) (In ₹)										
	(i) Basic	0.63	0.37	0.41	1.49	0.74	0.74	0.14	(4.19)	1.32	(3.30)
	(ii) Diluted	0.63	0.37	0.41	1.49	0.74	0.74	0.14	(4.19)	1.32	(3.30)

Note: The above is an extarct of the detailed format of financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the audited financial results are available on the stock exchanges websites www.bseindia.com; www.nseindia.com and on company's website www.ravindraenergy.com. Financial Results along with the Auditor's Report can be accessed by scanning the QR code.



For Ravindra Energy Limited Vidya Murkumbi **Executive Chairperson** DIN: 00007588

NATURA HUE-CHEM LIMITED

CIN NO: L24117CT1995PLC009845 Regd. Off.: 408, Wallfort Ozone, Fafadih Chowk, Raipur-492001 Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31st 2025.

				(RS In Lakhs)		
Quarter Ended			Year Ended			
31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24		
(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)		
-	-	-	-	6.65		
5.43	(2.82)	9.92	(1.82)	12.34		
-	-					
5.43	(2.82)	9.92	(1.82)	12.34		
-	-	.	-	-		
-	.		-	-		
-				-		
5.43	(2.02)	10.29	(1.82)	12.34		
	-	-		4.11		
0.31	-	-	0.31	0.39		
-	-	-	-	-		
l	·		-			
9.55	(2.02)	10.29	2.30	16.84		
414.53	414.53	414.53	414.53	414.53		
-	-	-	-	-		
l	(
				0.41		
0.23	(0.05)	0.25	0.06	0.41		
	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-25 31-Dec-24 (Audited) (Unaudited) 5.43 (2.82) 5.43 (2.82) (0.80) 5.43 (2.02) 3.81 (2.02) 3.81 (2.02) 414.53 414.53 0.23 (0.05)	31-Mar-25 31-Dec-24 31-Mar-24 (Audited) (Unaudited) (Audited) 5.43 (2.82) 9.92 5.43 (2.82) 9.92 5.43 (2.82) 9.92 (0.39) 0.02 5.43 (2.02) 10.29 3.81	31-Mar-25 31-Dec-24 31-Mar-25 (Audited) (Aud		

"NOTES TO RESULTS: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial results filed with the stock exchange under Regulation -33 of the SEBI (LODR), 2015. The full format of results are available on Company's website http://www.naturahuechem.com/ as well as on the webiste of BSE Limited."

"ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS SD/- Mansoor Ahmed, Managing Director" Date: 28.05.2025

NITIN CASTINGS LIMITED

CIN No. L65990MH1982PLC028822 Reg. Office : 202, A-Wing, Bldg. No. 3, Rahul Mittal Industrial Estate, Sir. M. V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

Audited Financial Result for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025 Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025

Scrip Code : 508875	Rs. in Lakhs (Except per share data)						
Particulars	Quarter Ended Year Ended						
	31-Mar-2025	31-Dec-2024	31-Mar-2024	31-Mar-2025	31-Mar-2024		
	Audited	Un-Audited	Audited	Aud	lited		
Total Income from Operations	3,914.83	3,451.76	3,988.91	15,447.84	15,309.07		
Net Profit for the period (before Tax, Exception and/or Extraordinary Items)	333.65	261.85	525.37	1,676.57	1,781.51		
Net Profit for the period before Tax (after Exception and/or Extraordinary Items)	333.65	261.85	288.72	1,676.57	1,544.86		
Net Profit for the period after Tax (after Exception and/or Extraordinary Items)	245.39	179.80	231.32	1,241.21	1,212.85		
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after Tax) and other comprehensives Income (after tax))	246.18	179.80	235.63	1,242.00	1,217.16		
Equity Share Capital	257.07	257.07	257.07	257.07	257.07		
Earning per Share (of Rs. 5/- each) Basic and Diluted (Note-1)	4.773	3.497	4.499	24.141	23.590		
Notes:							

- (1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28th
- (2) The Company is engaged in manufacture of Alloys Steel Castings and there is no separate reportable segment as per Ind_AS 108. (3) The above financial results have been prepared in accordance with the section 133 of the Companies Act, 2013 read with the
- relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India (4) Figures of previous period have been regrouped and / or recasted wherever considered necessary to confirm the grouping of curren
- (5) The Financial Results of the Company are submitted to BSE and are available on Company's website at www.nitincastings.com.
- (6) The figures of the last quarters are the balancing figures between the un-audited figures in respect of the nine month ended and the unaudited published year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.
- (7) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI ation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are availab

the website of BSE and on the Company's website at www.nitincastings.com For NITIN CASTINGS LIMITED

Nitin Kedia Managing Directo

DIN No.: 00050749

Date: 28th day of May, 2025

ATV PROJECTS INDIA LIMITED

(CIN: L99999MH1987PLC042719) Registered Office: 1201, 12th Floor, Windfall Building, Sahar Plaza Complex,

Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400059 Tel No:(022) 67418212; E-mail ID: atvprojects@ymail.com website: www.atvprojects.co.in

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

(Rs in lacs except EPS

		Quarte	Year Ended			
Particulars	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total income from operations	1840.88	1573.58	1924.05	7131.31	6163.56	
Net Profit / (Loss) for the Period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	256.54	165.86	151.93	735.97	640.41	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	256.54	165.86	151.93	735.97	640.41	
Net Profit / (Loss) for the period (after tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	257.17	166.87	152.33	740.12	645.69	
Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	257.17	166.87	152.33	740.12	645.69	
Equity Share Capital	5255.57	5255.57	5255.57	5255.57	5255.57	
Earnings Per Share(of Rs.10/- each) for continuing and discontinued operations)						
Basic : (In Rs.)	0.38	0.31	0.29	1.39	1.22	
Diluted : (In Rs.)	0.38	0.31	0.29	1.39	1.22	
Notes:						

The above financial result are reviewed by Audit Committee and thereby have been taken on records by board of

Director in their meeting held on 28.05.2025. The above is the extract of the detailed format of Quartely Financial Results filed with the Stock Exchange under the Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the



Place: Mumbai Date : 28.05.2025 For and behalf of the Board of ATV Projects India limited (Arun Kumar Sharma) Whole TiAme Directo

STARTECK FINANCE LIMITED

Regd.Office: 5th Floor, Sunteck Centre, 37-40 Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057 CIN: L51900MH1985PLC037039 Website: www.starteckfinance.com Email id: cosec@starteckfinance.com Tel No: +91 22 4287 7800 Fax No: +91 22 4287 7890

Extracts of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2025 (Rs. in Lakhs)

STANDALONE CONSOLIDATED **Particulars** Ended Ended Ended Ended Ended Ended 1.03.202 1.03.2025 31.03.2025 31.03.202 (Restated) Audited Audited Audited Audited Audited Audited Total Income from Operations 947.02 3.326.83 781.21 1.000.78 3.648.0 1.126.14 Net Profit / (Loss) for the period (before tax. 1,117.45 320.01 1,299.1 359.95 369.00 409.2 Exceptional and/or Extraordinary items) 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax 359.95 1,117.45 320.01 225.98 1,156.14 409.21 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 1,003.73 263.18 140.89 1,042.42 349.45 (after Exceptional and/or Extraordinary items Total Comprehensive Income for the period 398.1 2,764.82 1,215.96 264.14 2,803.5 1,302.23 [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up equity share capital 991.03 991.03 991.03 991.03 991.03 991.03 (Face Value of Rs. 10 each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) 20,433.94 17,675.88 20,433.94 22,444.36 22,444.36 19,411.39 as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised) 2.77 10.13 10.52 (a) Basic 2.66 1.42 3.53 10.13 10.52 3.53 (b) Diluted 2.66 Notes:

The above audited financial results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 27th May, 2025. The above financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. The Statutory Auditors of the Company have expressed an unmodified opinion on the abov audited financial results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2025.

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial vea ended 31st March, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financia year ended 31st March, 2025 is available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and

Place : Mumbai Date : 27th May, 2025

Whole Time Director (DIN:07852850)

Starteck Finance Limited **Amit Pitale**

the Company's website (www.starteckfinance.com) For and on behalf of the Board of Directors of

अंग्रेजी हुकूमत पर जीत, भूला रहे हैं नेता व नौकरशाह

आजादी की दास्तां को बयां करते हैं जय स्तंभ।

साल में दो बार होती है साफ-सफाई फिर उपेक्षित रहता है स्तंभ

सिर्फ जयस्तंभ ही नहीं कमोवेश हर विभृतियों की प्रतिमाएं उपेक्षा का शिकार हैं। अपनी गरिमा खो रहे ये धरोहर भी।

लोकमाया न्यूज।

धमतरी। मैं हुं जयस्तंभ, सियासी दल नेता व नौकरशाहों के साथ स्थानीय लोगों की उदासीनता के कारण उपेक्षित हूँ। स्थल की पहचान भी खो गई, कई नाम प्रचलित हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही नगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया। गुंबद के चारो ओर लगे अशोक चऋ में से एक सालों से उखड़ गई। टाइल्स टूटी हैं, उग आए बेतरतीब पेड़ पौधे, बिखरे कचरे से ऐतिहासिक स्मारक व शहादत की इबारत धुंधली होती दिख रही। दरअसल शहादत व विजय को स्मरणीय बनाने के लिए स्तंभ का निर्माण कराया गया। सरकार सिस्टम की अनदेखी की वजह से बदहाली की कगार पर है। विडंबना ही कहेंगे, शहीदों के बलिदान अंग्रेजी हुकूमत पर जीत को भूला रहे हैं, नेता व नौकरशाह।



dainiklokmaya@gmail.com

रायपुर, गुरुवार 29 मई 2025

गौरतलब है कि अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व अमर शहीदों की याद में ये स्मारक बना। स्थल आज बदहाल है। आलम यह कि शहादत की याद में बनाए गए स्मारक की साल भर उपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर स्मारक की सफाई कर नेता और समाजसेवियों द्वारा शहीद याद किए गए जाएंगे। स्तंभ के पास तिरंगा लहराया जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किसे है। शहीद स्मारक भूमि बाद में किस अवस्था में है। आज स्मारक के चारों तरफ उग आए पेड़ पौधे, ठेले खोमचे, नशेडियों का जमघट व फैली गंदगी मानो शहीद, शहादत व विजय का उपहास उड़ा रही है।

समाधान शिविर में लोगों के आवेदनों का हो रहा

मैनपुर के वन विभाग परिसर में आयोजित हुआ

हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से किया गया

गरियाबंद। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जिले

में जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा

है। इसी कड़ी में आज मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम

पंचायत मैनपुर खुर्द वन विभाग परिसर में समाधान शिविर

का आयोजन किया गया। जहां मैनपुर सहित ग्राम भाठीगढ,

हरदीभाठा, गोपालपुर, देहारगुड़ा, मैनपुर खुर्द, जाड़ापदर,

जिड़ार, कुल्हाड़ीघाट, तुहामेटा, मैनपुर कला, बोईरगांव,

छोटेगोबरा एवं दबनई के लोगों ने भी उपस्थित होकर अपने

- अपने आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में

त्वरित निराकरण - कलेक्टर उड़के

समाधान शिविर

लाभान्वित

बदहाल है स्मारक स्थल

स्थानीय स्तर पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के धरना, प्रदर्शन व पुतला दहन समेत देश प्रदेश के कई सरकारी आयोजन इसी स्मारक के इर्दगिर्द में मनाए जाते हैं। लेकिन शहीद स्मारक के पास भी सफाई कराने की पहल करना मुनासिब नहीं

सियासतदां हों या सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए हर साल स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने व याद कर बैठ जाते हैं। यहां तक कि शहीदों की पुण्यतिथि भी बिसरा दी जाती हैं।

गरिमा खो रहे धरोहर

विधानसभा में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने राजधानी सहित जिले व कस्बों के जयस्तंभ चौक को प्रचार व प्रदर्शन का माध्यम बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त सरकार ने जवाब दिया था कि सभी शौर्य स्तम्भ संरक्षित किए जाएंगे। महापुरुषों की मूर्ति या तस्वीरें लगेंगी और चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर सफाई देते हुए निर्देश भी दिए थे। लेकिन न तो किसी जनप्रतिनिधि, न ही नगर निकायों ने इस ओर ध्यान दिया है। जय स्तंभ ही नहीं कमोवेश हर विभूतियों की प्रतिमाएं भी उपेक्षा का शिकार हैं। लिहाजा अपनी गरिमा खो रहे ये संजीदगी ही नहीं दिखाई

बहरहाल देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले आजादी के मतवालों की याद में बना जयस्तंभ उपेक्षा का शिकार है। शौर्य स्तंभ की बदहाल दशा से देशप्रेमियों का मन काफी आहत हो रहा।स्तंभ को वर्षों से रंग–रोगन व सौंदर्यीकरण का इंतजार है। जयस्तम्भ के आसपास तहसील, जनपद भवन (पर्व) पलिस थाना, सिविल न्यायालय व नगर निगम हैं। नगर के हृदय स्थल पर निर्मित जयस्तंभ के अति निकट होने के बाद भी कई अध्यक्ष एवं अधिकारी आए और चले गए। लेकिन किसी ने भी जयस्तंभ चौक को संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया यदि संजीदगी से सुध लेते रखरखाव को प्राथमिकता देते के आधार पर तो आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ते नहीं दिखता

जय स्तंभ का महत्व

अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनों ने पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा था। इसके शताब्दी वर्ष में सन 1957 में पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में शहीद स्मारक के तौर पर जय स्तंभ बनवाए गए थे। उन्हीं में से एक है धमतरी शहर का जय स्तंभ भी।

जिम्मेदार मौन

१५ अगस्त १९४७ को आजादी के प्रतीकात्मक जय स्तंभ का निर्माण देश, प्रदेश के हर नगरों और कस्बों में किया गया है। जिससे बरबस आजादी के बाद निर्मित हुई जयस्तंभ को देखने से पुरानी यादें ताजा हो जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि न तो नगर प्रशासन न ही नेता, जनप्रतिनिधि,

पीएम आवास, महतारी वंदन योजना से लोग हो रहे लाभान्वितः गौरीशंकर कश्यप

समाधान शिविर बना ग्रामीण विकास का सेतु हितग्राहियों को सौंपे गए राशन कार्ड, पेंशन आदेश

लोकमाया न्यूज।

और सम्मान पत्र

महासमुद । सुशासन तिहार अंतर्गत महासमुंद जिले में 5 मई से 30 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 28 मई को पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत पथरला स्थित मिडिल स्कुल में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया शिविर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, पेंशन स्वीकृति आदेश, स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज चेक, तथा 16 लखपित दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इससे ग्रामीणों को न केवल योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि शासन की योजनाओं से उनका सीधा जुड़ाव भी सशक्त हुआ।

इस अवसर पर ग्राम पथरला की समित्रा बन्छोर, ग्राम पंचायत जबलपुर की जयंती भोई एवं सुनीता बिसी को प्राथमिकता श्रेणी प्रेरणादायक उपलब्धियों

राशन कार्ड पाप्त कर लाभार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सुमित्रा बन्छोर ने कहा. अब हमें सस्ते दर पर राशन मिलेगा और हम अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित होंगे। समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्ग श्यामलाल पटेल को पेंशन स्वीकृति आदेश सौंपा गया। अब मेरी वृद्धावस्था कुछ सहज हो जाएगी, यह सरकार की ओर से बड़ा सहयोग है।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शिविर में स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज चेक प्रदान किए गए जिसमें जय मां बंजारी स्व सहायता समूह आरंगी को 3.00 लाख, प्रियंका स्व सहायता समूह डोंगरीपाली को 1.50 लाख और वंदना स्व सहायता समूह, पथरला के राशन कार्ड वितरित किए गए। को 1.50 लाख की सहायता दी गई।वही आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं 16 लखपित दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान कर उनकी सम्मान किया गया।

बैंक द्वारा महिला समूहों को वित्तीय जानकारी दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं लक्ष्मी चौहान (बैतारी), राजनी बारिक (बम्हनी), रामदुलारी चौहान (पथरला), संगीता भोई, जयंती कश्यप (सराईपाली), उर्मिला गहिर (जबलपुर), भारती चंद्राकर एवं गंगा साहू (बम्हनी) ङ्क को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।समाधान शिविरों के माध्यम से शासन द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं का त्वरित लाभ मिल रहा है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का संदेश पहँच

निगम समाधान शिविर, 1905 आवेदन निराकृत

धमतरी। नगर निगम ने बुधवार को इंडोर हॉल में समाधान शिविर लगाया। नगर निगम को कुल 1920 आवेदन मिले। इनमें 1664 मांग से जुड़े और 256 शिकायत से जुड़े आवेदन थे। निगम अधिकारियों का दावा है कि इनमें से 1905 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। सिर्फ 15 आवेदन शेष बताए जा रहे हैं। बुधवार को शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उनके आवेदन लिए गए और निराकृत बताया गया। सरकार के समाधान शिविर में रूद्री रोड स्थित कैलाशपित. नगर अटल आवास के रहवासी पहुंचे। शिविर छोटे से जगह में लगाया गया था।अव्यवस्था से लोग परेशान होते नजर आए। उमेश विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, गणेशी सारथी, दुलारी बाई, कुमारी गुप्ता और गोपाल विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम ने 25 साल पहले अटल आवास बनवाया था। इसके बाद यहां की सुध नहीं ली गई। आज यहां के लोग नारकीय हालात में जी रहे हैं। न पीने के पानी की व्यवस्था है, न निस्तारी पानी की निकासी का कोई साधन। सुलभ शौचालय है, लेकिन पानी नहीं होने से सफाई नहीं हो पाती। लोग परेशान हैं।

कार्यकर्ता-सहायिका भर्ती आवेदन १० जून तक

धमतरी। एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसी गांव-वार्ड की महिला से 10 जन तक आवेदन मंगाए गए हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि आमदी के आंगनबाडी केन्द्र और मोंगरागहन के केन्द्र ऋमांक-2 में कार्यकर्ता की भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आमदी के आंगनबाड़ी केन्द्र ऋमांक-6, मुजगहन के केन्द्र ऋमांक-4 और 2, रुद्री के आंगनबाड़ी केन्द्र ऋमांक-3 और 1, छाती के आंगनबाड़ी केन्द्र ऋमांक-5 और 4 तथा मोंगरागहन के आंगनबाड़ी केन्द्र ऋमांक-2 में सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। सभी में प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र कंपोजिट भवन के पास स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी ग्राम पंचायत से ली

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

गरियाबंद। जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्कि छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं।

है, जिसके तहत हम पूरे प्रदेश का भ्रमण कर

रहे हैं। प्रथम चरण में जो आवेदन प्राप्त हुए

उनका द्वितीय चरण में हमारे अधिकारियों के

द्वारा निराकरण किया गया। अब तृतीय चरण में

हम जनता के पास जा रहे हैं। डेढ़ साल में हमने

प्रधानमंत्री मोदी की अधिकांश गारंटी को पुरा

किया है। लोगों से प्रधानमंत्री आवास देने का

जो वादा हमने किया था उसे निभाया है। 70

लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन की

राशि मिल रही है। सुशासन तिहार के दौरान

नारायणपुर में एक महिला ने मुझे यह बहुत

खुशी से बताया कि महतारी वंदन की राशि से

उसने एक सिलाई मशीन खरीदी है। जिसके प्रथम पृष्ठ का शेष माध्यम से वह 4 से 5 हजार की कमाई कर रही युवा शक्ति ही है राष्ट्र... है। इसी तरह एक बहन ने बताया कि वह इस राशि से किराना दुकान चला रही है और दो से निर्माण और एआई डाटा सेंटर का कार्य तीन हजार रुपए की आय अर्जित कर रही है। प्रारंभ हुआ है। इन क्षेत्रों में भी युवाओं के छत्तीसगढ देश का पहला राज्य है जहां सुशासन रोजगार की बड़ी संभावना सृजित होगी। हमारी एवं अभिसरण विभाग प्रारंभ किया गया है। सरकार ने पीएससी में हुए भ्रष्टाचार की जांच सरकार के सारे काम पारदर्शिता से हो रहे हैं। सीबीआई को सौंपी है। युवाओं के भविष्य के हम अब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ खिलवाड़ ना हो यह हमारी सर्वोच्च ई-फाइल के माद्यम से फाइलें अब ऑनलाइन प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हैं। भ्रष्टाचार के सारे रास्ते हम बंद कर रहे हैं। तिहार के दौरान डेढ़ साल में सरकार द्वारा किये इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, कार्यों का फीडबैक हम जनता से ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सुशासन तिहार का अभी तीसरा चरण चल रहा विधायक किरण देव, विधायक मोतीलाल साह

कैलाश विजयवर्गीय...

सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

विश्वविद्यालय क्लपति प्रो. एडीएन बाजपेयी समेत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने स्व. अग्रवाल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। सभी नेताओं ने स्व. अग्रवाल के सरल, संयमी और मूल्यनिष्ठ जीवन को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाज, परिवार और संस्कारों की जो अमूल्य धरोहर छोड़ी है, वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी।

जानकारी ली। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, कलेक्टर बी एस उईके भी शामिल हुए। उन्होंने शिविर में विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही स्टॉलों के माध्यम से लोगों को दिये जा रहे योजनाओं की जानकारी एवं लाभान्वित किये जा रहे गतिविधियों का जायजा लिया। सुशासन तिहार के दौरान मैनपुर खुर्द क्लस्टर अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों का सफ्लतापूर्वक निराकरण किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानना एवं उनका यथा संभव निराकरण भी करना है। इसी तारतम्य में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के गांवों के नजदीक क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की महती योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से सबको आवास का लाभ मिल रहा है। वहीं महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि मिल रही है। साथ ही उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया



गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट प्रदान कर गोदभराई रस्म एवं 2 शिशुओं का अन्नप्रासन किया। इस दौरान शिविर में पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी, डीएफ्ओ लक्ष्मण सिंह, जिला पंचायत सीईओ जी. आर. मरकाम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लोकेश्वरी नेताम, संजय नेताम, जनपद अध्यक्ष श्रीमती मोहना नेताम, एसडीएम पंकज डाहिरे, सीईओ जनपद मैनपुर सुश्वेता वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारीगण एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर बीएस उइके ने

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप राज्य में शुरू किए गए सुशासन तिहार के आयोजन के उद्देश्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मैनपुर क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादातर आवेदन पीएम आवास, सड़क, पुल पुलियों से संबंधित है, जिनका परीक्षण कर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों द्वारा सलफ जलाशय के कार्यों को पूर्ण करने की मांग संबंधी आवेदन के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए भारत सरकार स्तर से कुछ प्रक्रिया शेष है, जैसे ही पूर्ण स्वीकृति मिलेगी शासन स्तर से बजट मांग की कार्यवाही की जाएगी। जिससे जलाशय का शेष कार्य तत्परता से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के आवेदन में 13 दिसम्बर 2005 के कब्जा को पात्रता में देखा जाता है। इस संदर्भ में जितने पात्र हितग्राही है उनमें अधिकतर हितग्राहियों का पट्टा बनाकर दिया जा चुका है। कुछ बचे हितग्राहियों का पात्रता परीक्षण कर वन अधिकार पट्टा बनाया जा रहा है। कलेक्टर उइके ने सुशासन तिहार के आयोजन के निर्णय को राज्य सरकार के अत्यंत जनहितैषी एवं संवेदनशील निर्णय बताते हुए सराहना की।

हमर स्वस्थ्य लइका शिविर में विशेषज्ञों की देखरेख में 49 बच्चों की स्वारथ्य जांच



लोकमाया न्यूज।

महासमंद। हमर स्वस्थ्य लइका शिविर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और कुपोषण मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों की जमीनी क्रियान्वयन का प्रमाण है, जो यह दर्शाता है कि सरकार और साझेदार संस्थाएं मिलकर समुदाय स्तर पर बच्चों के समग्र विकास हेतुं प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश का हर बच्चा स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त बन सके यही इस

प्रयास का मूल उद्देश्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के संयक्त प्रयास, राज्य पोषण उत्कृष्ट केंद्र और यनिसेफ के तकनीकी सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली में 27 मई को हमर स्वस्थ्य लइका शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रदेश में कुपोषण से प्रभावित बच्चों की पहचान और उपचार के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिविर में कल 49 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञों की टीम, जिसमें डॉ.

क्रणाल नायक बाल रोग विशेषज्ञ, जॉन वरूर अलेक्जेंडर राज्य पोषण समन्वयक. और श्रीमती रिया मुखर्जी जिला पोषण समन्वयक शामिल थे, ने प्रत्येक बच्चे की चिकित्सकीय जांच कर आवश्यक दवाइयाँ, परामर्श और पोषण संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस आयोजन को सफल बनाने में सीडीपीओ जी. आर. नारंग, बीएमओ डॉ. एच. एल. जांगडे, बीपीएम शीतल सिन्हा, ब्लॉक समन्वयक दीक्षा पटेल एवं खुशब चेलक सहित फील्ड स्टाफ का योगदान रहा।

नाम परिवर्तन

किया जाता है। कि मैं देवेश पिता

ईश्वर निवासी मकान नं. 16/ सी,

एसपीए, आदर्श उद्योग के पास,

सेक्टर - 5, सिविक सेन्टर, भिलाई,

जिला - दुर्ग (छ.ग.) यह शपथ

करता हुँ कि मैने अपना पुराना नाम

को त्याग कर नया नाम देवेश

पनीगराही पिता ईश्वर पनीगराही

रख लिया हूँ। अतः आज से मुझे

समस्य शासकीय , अर्धशासकीय

व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम

देवेश पनीगराही पिता ईश्वर

पनीगराही से ही जाना पहचाना

देवेश पनीगराही

के पास,सेक्टर -5, सिविक सेन्टर,

भिलाई तह. व विला दुर्ग (छ.ग.)

जावे।

सर्वसाधारण को सूचित

पीओके एक दिन हमारा...

कारण भरोसे की कमी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंद्र में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और महसूस किया है। आज यह साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती, तो भारत की सेनाएं निचले पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पातीं। राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद का कारोबार चलाना लागत प्रभावी नहीं है। आज पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति और प्रतिक्रिया दोनों को नया स्वरूप दिया है।

नड्डा के बाद कौन...

की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी. भाजपा संगठन के जानकारों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति गठित की जाएगी. इस समिति की देखरेख में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

फांसीवाद का परिचायक एक देश एक चुनाव चित्र पर माल्यार्पण से हुई। वक्ताओं

संगोष्टी में वक्ताओं ने रखे अपने विचार, कहा- शिक्षा, स्वारथ्य सामाजिक-आर्थिक समानता की जरूरत

लोकमाया न्यूज।

धमतरी। समता साहित्य अकादमी

में एडवोकेट हेमलाल निर्मलकर, जवाहर शर्मा, तिलक राज सोनकर, सामाजिक कार्यकर्ता सत्यवान यादव, गगन कुम्भकार, मोहनी साहू और गंगाराम देशलहरा

विशेष अतिथि शंकर रात्रे और साहित्यकार प्रो. के. मुरारीदास थे। वक्ताओं ने कहा कि एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। इसे देश को तोडने की साजिश बताया गया। संगोष्ठी की शुरुआत संविधान कहा कि यह आरएसएस और भाजपा की सोच है। यह एक नेता,

एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति और एक कानन के नारे का विस्तार है। यह मौजूदा सत्तानाशीनों की फासीवादी सोच का परिचायक है।

भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव एक साथ कराने से खर्च बचाने और विकास में रुकावट न आने के तर्क को वक्ताओं ने खारिज किया।कहा देश को एक चनाव नहीं. सामाजिक-आर्थिक समानता की जरूरत है। कार्यक्रम में जेआर सोनवानी, प्रेम सायमन, रंजीत छाबडा, एमए फहीम, मोहम्मद अय्यूब खान समेत बड़ी संख्या में

प्रदेश में सर्वाधिक गरियाबंद जिले के 307 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का मिल रहा लाभ

गरियाबंद। जिले के ऐसे असहाय बच्चे जिनकी माता-पिता की मत्य हो चकी है, उनको महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रवर्तकता कार्यक्रम स्पॉन्सरशीप योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के कुल 307 बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रूपये स्पॉन्सरशीप योजना के तहत दिया जा रहा है। इससे असहाय एवं अनाथ बच्चों को उनके पालन-पोषण एवं पढ़ाई लिखाई के लिए सहारा मिल रहा है। यह राशि बच्चों को अधिकतम 03 वर्ष अथवा 18 वर्ष पूर्ण होने तक प्रदाय किया जाता है।

कलेक्टर बी.एस उइके के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई (मिशन वात्सल्य योजना) के अधिकारी-कर्मचारियों की तत्परता एवं सिक्रयता से प्रवर्तकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रवर्तकता कार्यक्रम (स्पॉन्सरशिप योजना) के तहत लाभान्वित किये जाने के लिए ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर है, जिनकी माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, भुमिहीन है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, अथवा जीवन अत्यंत कठिनाई से गुजर रहा है। ऐसे बच्चों को योजना के तहत पात्रता की श्रेणी में रखा जाता है।

NATURA HUE-CHEM LIMITED CIN NO: L24117CT1995PLC009845

Regd. Off. :- 408, Wallfort Ozone, Fafadih Chowk, Raipur-492001 Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31st 2025

Quarter Ended Year Ended Particulars 31-Mar-25 31-Dec-24 31-Mar-24 31-Mar-25 31-Mar-24 (Audited) (Un Audited) (Audited) (Audited) Total Income Profit/Loss before exceptional Items and to 5.43 (2.82)9.92 (1.82)12.34 Exceptional items
Profit/Loss before and tax 5.43 (2.82)9.92 (1.82)12,34 Tax Expense b) Deffered Tax [0.39]0.02 (0.80)d) Tax for previous Years Profit/(loss) for the period (2.02)(1.82)12.34 5.43 A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss: (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss 0.31 0.31 9. (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tox relating to items that will be reclassified to grafit or less Total Comprehensive Income for the period (2.02)10.29 2.30 16.84 (Comprising Frailt (Less) and Other comprehensive Income for the period) Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/- each fully paid up) 414.53 414.53 414.53 414.53 414.53 Reserve excluding Revaluation reserves as per Balance sheet of Previous accounting year Earnings per equity share (Par value Rs. 10 each) (0.05) 0.23 0.25 0.41 0.06 ii) Diluted

"NOTES TO RESULTS: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial results filed with the stock exchange under Regulation -33 of the SEBI (LODR), 2015. The full-format of results are available on Company's website

"ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

http://www.naturahuechem.com/ as well as on the webiste of BSE Limited." Date: 28.05.2025 SD/- Mansoor Ahmed, Managing Director'

स्कूल के गैलरी कक्ष में एक देश एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक सुशीला वाल्मीकि ने की। संचालन प्रांताध्यक्ष जीआर बंजारे ने किया।